



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ 1936 (श0)
(सं0 पटना 201) पटना, मंगलवार, 27 जनवरी 2015

सं0 1/चौ0-90-21/2014गृ0आ0-484
गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

21 जनवरी 2015

विषय :-बिहार राज्य चौकीदार /दफादार को वर्दी भत्ते के नगद भुगतान के संबंध में।

चौकीदार/दफादार संघ द्वारा चौकीदार/दफादार को दिनांक 01.01.1990 के प्रभाव से चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित किये जाने के फलस्वरूप उनके संघों के द्वारा वर्दी भत्ता की मांग की जा रही है।

2. तदनुसार चौकीदार/दफादारों के कर्तव्यों की प्रवृत्ति एवं पुलिस बल के साथ उनका सामंजन को देखते हुए चौकीदार/दफादार को वर्दी भत्ता के रूप में रू0 3000/- (तीन हजार रुपये) प्रतिवर्ष की दर से वर्दी भत्ता स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत चौकीदार/दफादार को प्रतिवर्ष रू0 3000/- (तीन हजार रुपये) प्रतिकर्मी प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। यह वर्ष 2014-15 से प्रभावी होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कौशलेन्द्र पाठक,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 201-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>